

स्वागतम्

डबलिन में आपका स्वागत है

डबलिन शहर की ओर से, यहाँ डबलिन में अपना नया घर बनाने के लिए हम आपका और आपके परिवार का गर्मजोशी से स्वागत करना पसंद करेंगे।

हम डबलिन में उच्च जीवन गुणवत्ता प्रदान करने के लिए समर्पित हैं। यह हाल ही में [राष्ट्रीय नागरिक सर्वेक्षण](#) में परिलक्षित हुआ है, जिसमें हमारे 99 प्रतिशत निवासियों ने डबलिन को रहने के लिए एक उत्कृष्ट अथवा अच्छी जगह के रूप में रैंक दिया है। संभवतः सुंदर आस-पड़ोस, पार्क्स और हरियाली वाले स्थानों के कारण संभवतः आपने अपने घर के रूप में डबलिन को चुना है। [यहाँ आकर जानें](#) कि हमारे खूबसूरत समुदाय को कायम रखने में हमारी सहायता करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए।

सरकार में पारदर्शिता के लिए यह शहर प्रतिबद्ध है और ऐसे कई तरीके हैं जिनके जरिए आप सम्बद्ध हो सकते हैं और संसूचित रह सकते हैं। शहरी अर्थात् सिटी से संबंधित सेवाओं के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट को ब्राउज़ करें, जो शहर के नेतृत्व और समारोहों के कैलेंडर का परिचय है।

गतिविधियाँ पर्याप्त संख्या में हैं – [डबलिन सामुदायिक मनोरंजन केंद्र](#) में फ़िटनेस और मनोरंजन के अवसरों को चुनें, हमारे स्वतंत्रता दिवस समारोह और डबलिन आयरिश महोत्सव जैसे [सामुदायिक कार्यक्रमों](#) का आनंद लें, और हमारे 100+-मील [बाइक पाथ सिस्टम](#) और [60 सार्वजनिक पार्कों](#) के बारे में जानकारी हासिल करें। इसके अलावा, हमारा सुदृढ़ [स्वयंसेवक कार्यक्रम](#) हमारे समुदाय में शामिल होने के लिए सभी आयु वर्गों के लिए विकल्प उपलब्ध कराता है।

जब परिवार और मित्र विज़िट करें, या यदि आप सुझावों की तलाश में हों, तब डबलिन कन्वेंशन और विज़िटर ब्यूरो की वेबसाइट [visitdublinohio.com](#) पर जाएँ या ऐतिहासिक डबलिन में विज़िटर्स सेंटर अर्थात् आगंतुक केंद्र पर रुकें। जब आपमें संस्कृति के बारे में जानने की ललक हो, तब [डबलिन आर्ट्स काउंसिल](#) पार्क में होने वाले आउटडोर कंसर्ट्स (भवन से बाहर आयोजित संगीत कार्यक्रमों), गैलरी प्रदर्शनियाँ और रचनात्मक कक्षाएँ आपका गंतव्य स्थल है।

हम आपको डबलिन शहर की ओर से पेश की जाने वाली सभी सेवाओं और सुविधाओं से परिचित होने और लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अपने घर में आपका स्वागत है!

भवदीय,

मेयर ग्रेग पीटरसन

डाना मैकडैनियल, सिटी मैनेजर